

Date: 15.06.2021

To,
The BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Kala Ghoda Fort,
Mumbai - 400 001

Dear Sir

Sub: Intimation for not opening of Tendering Period in the matter of Oracle Credit Limited ("Target Company") ("Open Offer").

This is with reference to the open offer of Oracle Credit Limited, We would like to inform you that tendering period will not open on June 15th, 2021 due to non-receive of approval from Reserve Bank of India for Change of Management.

Further, Acquirers will intimate the shareholders of Target Company about the revised schedule of Tendering Period after receiving approval form Reserve Bank of India.

Thanking You, Yours truly,

For Fast Track Finsec Private Limited Registration Code: INM000012500

Vikas Kumar Verma

Director

DIN: 05176480

E-AUCTION - SHIRPUR POWER PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) Sale as a Going Concern Under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 CIN: U40100GJ2005PTC094304

Notice is hereby given to the public in general under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with Rules and Regulations made thereunder ("Code"), that the sale of SHIRPUR POWER PRIVATE LIMITED - IN LIQUIDATION ("Corporate Debtor") as a GOING CONCERN will be held by E - Auction through the service provider MSTC Limited via website e-Auctions | MSTC Limited (mstcindia.co.in).

tem	Description	Reserve Price (INR)	Earnest Money Deposit (INR)	Incremental Amount (INR)
1.	Sale of Shirpur Power Private Limited - in Liquidation as a Going Concern: • Thermal Power Plant 2x150 MW • Comprises a Coal handling unit, Boiler - Turbine - Generator system, Ash Handling unit, Feed and Circulation water systems, Transmission system and other ancillary systems like water Treatment Plant, Coal weighing systems, Diesel generators etc. Further information is available on www.sppl.decoderesolvency.com		4,81,29,550	48,12,955

Sr. No. Event Timeline (days) Submission of Bid Forms, EMD, KYC Declaration, June 15, 2021 to June 25 2021

Declaration Forms and other applicable forms June 28, 2021 at 11:00 AM to 4.00 PM Bidding on E-Auction Portal

Interested applicants are instructed to read the complete Process Memorandum containing details of the terms and conditions of the e-Auction at www.sppl.decoderesolvency.com and also at https://www.mstcindia.co.in/content/Forthcoming_e_Auctions_For_All_regions.aspx. The Liquidator reserves the right to cancel, extend or modify any of the terms of e-Auction at any time without assigning any reason. The Liquidator has the right to reject any bid without assigning any reasons. Get in touch (email only) by writing to liquidator.sppl@decoderesolvency.com

Dushyant C Dave Liquidator - Shirpur Power Private Limited IBBI Registration Number: IBBI/IPA-003/IP-N00061/2017-2018/10502 1101 Dalamal Towers, Nariman Point, Mumbai - 400021, INDIA Place: Mumbai Correspondence Email: liquidator.sppl@decoderesolvency.com Date: June 15, 2021 Registered Email: dushyant.dave@decoderesolvency.com



RACL Geartech Limited CIN: L34300DL1983PLC016136 Regd. Office: 15" Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi - 110019 Phones: +91-11-66155129, +91-120-4588500

Fax No.: +91-120-4588513 E-Mail: investor@raclgeartech.com Website: www.raclgeartech.com NOTICE FOR THE LOSS OF SHARE CERTIFICATES

NOTICE is hereby given that following share certificate(s) issued by the Company are stated to be lost/ misplaced and the registered holder thereof have applied to the Company for issue of duplicate share

Folio	Name of the Shareholder	Share Certificate(s) No.	Distinctive Numbers		No. of
No.			From	То	Shares
21561	Parasmal Jain	11069	3705098	3706007	100
16219	Parasmal	1059	2704908	2705007	100
	Jain	1426	2741608	2741707	100
		1533	2752308	2752407	100
		1643	2763308	2763407	100
		2736	2872608	2872707	100
		3524	2951408	2951507	100
		5538	3152808	3152907	100
		7748-7750	3373808	3374107	300
		9920	3591008	3591107	100
		10289	3627908	3628007	100
		10902-10903	3689208	3689407	200
		11436	3742608	3742707	100
		12300	3829008	3829107	100
		12433	3842308	3842407	100
		12435	3842508	3842607	100
		13203	3919308	3919407	100
		16178	4216808	4216907	100
		16246	4223608	4223707	100
		18988-18989	4497808	4498007	200
		21537	4752708	4752807	100
		21723	4771308	4771407	100
		22202	4819208	4819307	100
		01582	2757208	2757307	100
	3	11130-11131	3712008	3712207	200

The public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above share certificates. Any person(s) who has/ have any claim(s) with the Company in respect of the said share certificates should lodge such claim at its Registered Office at the address given above within 15 days of the publication of this Notice, after which no claim will be entertained and the Company will proceed to issue Duplicate Share

Place: Noida Date: 14th June, 2021

Gursharan Singh Chairman & Managing Director

For RACL Geartech Limited

ReLIANCE

Notice of Postal Ballot

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the 'Rules'), as amended from time to time and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the dispatch of Notice of postal ballot along with the explanatory statement thereto ('Postal Ballot Notice') with respect to the special business mentioned therein and the Postal Ballot Form to the Members of the Company, has been completed on Monday The Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form containing the

process and instructions was sent to all the members, whose names appear in the Register of Members / list of beneficial owners as received from National Securities Depository Limited ("NSDL") / Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as on Friday, June 4, 2021 ('Cut-Off Date'), for seeking their approval through Postal Ballot

E-voting facility is provided to the members to enable them to cast their vote: electronically. KFin Technologies Private Limited ('KFIN' or the 'Registrar' has been engaged by the Board of Directors of the Company ('Board') for

providing the e-voting platform. Members whose email address is not registered can register the same in the

Members holding share(s) in physical mode can register their e-mail ID on the Company's website at https://www.reliancepower.co.in/ web/reliance-power/shareholder-registration by providing the requisite details of their holdings and documents for registering their e-mail

Members holding share(s) in electronic mode are requested to register update their e-mail address with their respective Depository Participants "DPs" for receiving all communications from the Company electronically. Members whose names appear in the register of members of the Company or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the Cut-Off Date, i.e., Friday, June 4, 2021 only shall be entitled to cast their votes by way of Postal Ballot or e-voting. A person who was not a Member of the Company on Cut-Off Date should treat the Postal Ballot Notice for

Members may vote on the postal ballot from June 14, 2021 to July 13, 2021. In terms of the requirements of SEBI Circular No.: SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020, the e-voting period begins at 10.00 A.M. (IST) on Wednesday, June 16, 2021 and ends at 5.00 P.M. (IST) on Tuesday, July 13, 2021. Thereafter the e-voting module shall be disabled by KFIN. In case of voting through physical mode, postal ballot forms received after 5:00 PM (IST) on Tuesday, July 13, 2021 shall be considered as invalid.

In case of non-receipt of the Postal Ballot Form or for request for a duplicate Postal Ballot Form or for any query or grievances pertaining to voting by Postal Ballot, including the e-voting process can be addressed to Shri Praveen Chaturvedi, General Manager, KFin Technologies Private Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad, Telangana – 500 032 or on Toll free no: 1800 309 4001 or email: rpower@kfintech.com

Members may also write to the Company Secretary, at the Registered Office address of the Company or through email at reliancepower.investors@

Shri Anil Lohia, Partner or in his absence Shri Chandrahas Dayal, Partner, M/s. Dayal & Lohia, Chartered Accountants have been appointed as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot voting process in a fair and

The results of the Postal Ballot and e-Voting will be declared on or before 5.00 P.M. (IST) on Thursday, July 15, 2021 at the Registered Office of the Company by placing it along with the report of the scrutinizer on its notice board. Company's website www.reliancepower.co.in and shall also be communicated to the Stock Exchanges where the equity shares of the

The Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form are available on the Company's website www.reliancepower.co.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on KFin's website www.evoting.kfintech.com.

For Reliance Power Limited

Murli Manohar Purohit Vice President - Company Secretary & Compliance Officer

Date: June 14, 2021 Reliance Power Limited CIN: L40101MH1995PLC084687

financialexp.epapr.in

Place: Mumbai

Registered Office: Reliance Centre, Ground Floor 19, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001 Tel.: +91 22 4303 1000, Fax: +91 22 4303 3166

E-mail:reliancepower.investors@relianceada.com,Website: www.reliancepower.co.in

Vaibhav Global Limited Regd. Off.: K-6B, Fateh Tiba, Adarsh Nagar, Jaipur- 302004

Phone: 91-141-2601020; Fax: 91-141-2605077; CIN: L36911RJ1989PLC004945 Email: investor_relations@vaibhavglobal.com; Website: www.vaibhavglobal.com

NOTICE OF BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder and in accordance with the SEBI Regulations, the register of members and share transfer books of the Company shall be closed on Friday, 2" July, 2021 for the purpose of Annual General Meeting and Payment of Final Dividend, if declared / approved by the Shareholders in its Annual General Meeting to be held on Thursday, 29" July, 2021.

Securities and Exchange Board of India has stipulated that all listed companies shall use approved mode of payment viz direct credit, NEFT, RTGS, 'payable-at-par' warrants/cheques etc. for the purpose of making payments to the shareholders. All the shareholders are requested to immediately update their Bank Account No., if the same has not been updated with the Company's share transfer agent or the depository participant, as the case may be.

Please keep your updated email ID registered with the Company/Depository Participant to receive timely communication

For Vaibhav Global Limited

Sushil Sharma (Company Secretary) Date: 14th June, 2021 FCS: 6535 **TEMBO GLOBAL INDUSTRIES LIMITED**

(CIN: L29253MH2010PLC204331)

Regd. Office: Plot No - PAP-D-146-147, Turbhe MIDC, TTC Industrial Area, Opp. Balmer Lawrie Van Leer Co, Turbhe Navi Mumbai - 400 705 Tel. No.: 22 - 2762 0641 | Website: www.sakethexim.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 1ST Extra Ordinary General Meeting of TEMBO GLOBAL INDUSTRIES LIMITED will be held on Wednesday, 07" July, 2021 at 11:00 am. at Registered office of the company add is Plot No - PAP D - 146/ 147, TTC MIDC, Turbhe, Navi Mumbai - 400705.

TO TRANSACT THE FOLLOWING BUSINESS :-

SPECIAL BUSINESS:

RAUNAQ GEARS

Place: Jaipur

1. To consider and, approve with or without modification(s), the alteration of Memorandum of Association under section 13 for inclusion of Pharmaceutical business in addition to existing business of the company.

To consider and approve with or without modification the alteration of Article of Association under section 14 for inclusion of clause Right of First Refusal and Transfer Restrictions and related definition under article 2.

The venue for the EOGM shall be the Registered Office of the Company. The respective link and details along with explanatory statement will be available on Companies website: - www.nutclamps.com and on the websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of M/s. Bigshare Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company.

In compliance with Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Act read with the Rules and the MCA Circulars the Company has extended e-voting facility for its Members, to enable them to cast their votes electronically.

The e-voting period begins on Sunday 04th July, 2021 at 9:30 am (IST) and ends on Tuesday, the 06th day of July, 2021 at 5:00 p.m. During this period Shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Wednesday 30th June, 2021 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

By order of the Board of Directors For Tembo Global Industries Limited SANJAY JASHBHAI PATEL

Place: Navi Mumbai Managing Director Date: 14th June, 2021 DIN No. 01958033



PRAJ INDUSTRIES LIMITED Regd. off.: "Praj Tower", S. No. 274 & 275/2,

Bhumkar Chowk- Hinjewadi Road, Hinjewadi, Pune - 411 057. CIN:L27101PN1985PLC038031 Tel.: +91 20 7180 2000 / 2294 1000. Fax: +91 20 2294 1299. E-mail: info@praj.net Website: www.praj.net

NOTICE

(for the attention of Equity Shareholders of the Company) Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to investor Eduction and Protection Fund (IEPF) Suspense Account

In terms of the requirements of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended ("the Rules") the Company is required to transfer the shares in respect of which all the dividends have remainded unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years to the IEPF Account.

The Company has already sent individual communication to the concerned shareholders at their address registered with the Company, whose shares are liable to be transferred to IEPF Account as per the said Rules, informing them to forward the requisite documents as mentioned in the said communication, to the Company or to the Company's Registrar and Share Transfer Agent latest by 16th August, 2021, failing which, the Company shall transfer the respective shared to IEPF Account, in accordance with the requirements of said Rules.

Details of such shareholders, who have not encashed their dividends for seven consecutive years and whose shares are therefore liable to be transferred to IEPF Account are available on Company's website www.praj.net.

The concerned shareholders may note that, once the shares are transferred to IEPF Account, they can claim the said shares from IEPF, for which details are available at www.iepf.gov.in

For any information / clarifications on this matter, concerned shareholders may write to the Company at investorsfeedback@praj.net or contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent at Link In time India Pvt. Ltd. Block No. 202, 2 nd Floor, Akshay Complex, Near Ganesh Temple, Off Dhole Patil Road, Pune 411 001 Tel: 020 26160084/1629. E-Mail - iepf.shares@linkintime.co.in

For PRAJ INDUSTRIES LIMITED Sd/-

DATTATRAYA NIMBOLKAR Place : Pune CHIEF INTERNAL AUDITOR & Date: 15th June, 2021 COMPANY SECRETARY

MUTUAL

FUND

Mahindra

III Manulife

Place: Mumbai

Mahanadi Coalfields Limited

(A Subsidiary of Coal India Limited) Jagruti Vihar, Burla-768020, Dist. - Sambalpur, Odisha Ph. (EPBX): 0663-2542461 to 469 Website: www.mahanadicoal.ii

Notice

All the tenders issued by CIL and its Subsidiaries for procurement of Goods, Works and Services are available on website of Coal India Ltd www.coalindia.in, respective subsidiary Company, (MCL, www.mahanadicoal.in). CIL e-procurement portal https://coalindiatenders.nic.in and Central Public Procurment Portal https:// eprocure.gov.in In addition,procurement is also done through GeM portal https://gem.gov.in". R-5059

NEULAND LABORATORIES LIMITED (CIN: L85195TG1984PLC004393)

Register office*:11th Floor (5th Office Level), Phoenix IVY Building, NEULAND Plot No.573A-III, Road No. 82, Jubilee Hills, Hyderabad- 500033 ir@neulandlabs.com, www.neulandlabs.com, Tel: +91-40-67611600

NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 37" Annual General Meeting ("AGM") of

the Company will be held on Wednesday, July 7, 2021, at 10.30 a.m. (IST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021, respectively, issued by Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars"), without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business set forth in the Notice of the

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2020-21 have already been emailed to all shareholders whose email IDs are registered/ available with the Company. The emailing of Notices to shareholders has been completed on June 14, 2021. The same is also available on the Company's website www.neulandlabs.com.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, the Company is providing remote e-voting facility to the members to cast their vote by electronic means on all resolutions set forth in the Notice. The facility for e-voting through electronic voting system shall also be made available during the meeting on the date of AGM, for those Members who have not cast their vote by remote e-voting. The Board has appointed Mr. D. Hanumanta Raju, or failing him, Ms. Shaik Razia, Partners, M/s. D. Hanumanta Raju & Co, Practicing Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting the voting in a fair and transparent manner.

 All the business shall be transacted only through remote e-voting and voting by electronic means during the AGM. Cutoff date for determining the eligibility to vote by electronic

means or at the AGM is Wednesday, June 30, 2021 ("the Cut off date"). A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficiary owners maintained by the depositories as on the Cut-off date only shall be entitled to avail the remote e-voting facility as well as voting during the AGM through

 The remote e-voting facility will be available as www.evoting.nsdl.com from Sunday, July 4, 2021(9:00 a.m. IST) and ends on Tuesday, July 6, 2021 (5:00 p.m.IST). Thereafter the portal

Any person holding shares in physical form and nonindividualshareholders, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice is send through emailand holding shares as of the Cut off date may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or Issuer/RTA. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password" option available on www.evoting.nsdl.comor call on toll free no. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 . In case of Individual Shareholders holding securities in demat mode who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the Cut-off date may follow steps mentioned in the Notice of the AGM under "Access to NSDL e-Voting system".

The facility for e-voting through electronic voting system shall also be made available during the meeting on the date of AGM, for those Members who have not cast their vote by remote e-voting.

Members who have cast their votes by remote e-voting, prior to the AGM may attend the meeting, but shall not be entitled to cast their vote again during the AGM.

Members may note that the Notice of the 37th AGM and the Annual Report for the financial year 2020-21 are also available on the Company's website www.neulandlabs.com, the website of NSDL viz. www.evoting.nsdl.com as well as on the websites of the Stock Exchanges viz. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

Members who need assistance before or during the AGM, can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in or use Toll free no.: 1800-1020-990 and 1800-224-430 or contact Mrs. Sarita Mote, (Assistant Manager)-NSDL at evoting@nsdl.co.in For Neuland Laboratories Limited

Place: Hyderabad Date: June 14, 2021

Sarada Bhamidipati Company Secretary

*With effect from June 11, 2021 the Registered Office has been shifted to 11th Floor (5th Office Level), Phoenix IVY Building, Plot No.573A-III, Road No. 82, JubileeHills, Hyderabad- 500033 from Sanali Info Park, 'A' Block Ground Floor 8-2-120/113, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034

Triveni Glass LTD 1,Kanpur Road,Allahabad-211001

CIN: L26101UP1971PLC003491: Website: www.triveniglassltd.com Email: akd@triveniglassltd.com; Tel: 0532-2407325 NOTICE This is to inform you that the

Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 22nd June 2021 at 12:00 Noon, to consider and approve the Audited Financial Results for the quarter and year ended 31" March, 2021. Date: 14.06.2021 Sushma

Place: Prayagraj Company Secretary

MAHINDRA MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT **PRIVATE LIMITED** (Formerly known as Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.)

Registered Office: "A" Wing, 4th Floor, Mahindra Towers, Dr. G.M Bhosale Marg, P.K. Kurne Chowk, Worli, Mumbai 400 018 Corporate Office: 1st Floor, Sadhana House, 570, P.B Marg, Worli, Mumbai – 400 018 Tel: 1800 4196244; website: www.mahindramanulife.com; email id: mfinvestors@mahindra.com

Corporate Identity Number: U65900MH2013PTC244758

CORRIGENDUM TO THE NOTICE NO. 17/2021 -

This is with reference to the Notice no. 17/2021 dated June 12, 2021 published in 'Navshakti' and 'The Financial Express' on June 13, 2021 with respect to 'Declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') in Mahindra Manulife Dynamic Bond Yojana'. In this regard, the unitholders/investors are requested to note that the 'NAV as on June 11, 2021' in the aforementioned notice shall be read as below:

Name of the Scheme	Plan(s)/Option(s)	NAV as on June 11, 2021 (Rs. per unit)
Mahindra Manulife Dynamic Bond Yojana	Regular Plan – Quarterly IDCW Option	10.3659
Bond rojana	Direct Plan – Quarterly IDCW Option	10.7206
This corrigendum shall form an i	integral part of the Notice no. 17/2021 and all	other contents mentioned in the

aforesaid notice except as specifically modified herein above remain unchanged.

Sd/-

For Mahindra Manulife Investment Management Private Limited

(Formerly known as Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.)

Date: June 14, 2021

Authorised Signatory Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



LJP implodes: Five MPs oust Chirag Paswan as leader, elect his uncle **Pashupati Kumar Paras**

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, June 14

FIVE OFTHE six Lok Janshakti Party (LJP) MPs in the Lok Sabha have joined hands against their leader Chirag Paswan and elected Pashupati Kumar Paras, the youngest brother of Paswan's late father and party founder Ram Vilas Paswan, in his place, causing a big churn in Bihar politics.

The Lok Sabha Secretariat on Monday evening recognised Paras as the leader of the LJP in the House, a day after the five MPs informed Speaker Om Birla about their decision.

Paras lauded Bihar chief minister Nitish Kumar as a good leader and 'vikas purush' (development-oriented man), high lighting the deep fault lines within the party as his nephew has been a strong critic of the supreme JD(U) leader.

"I have not broken the party but saved it," Paras, the MP from

Hajipur, told reporters. He asserted that 99% of LJP workers were unhappy with the turn of events in Bihar as Paswan led his party against the JD(U) and it fared poorly in the 2020 Assembly polls. The LJP has been on the brink of collapse, he said in reference to its poor show in the polls, and lashed out at "anti-social"

Paswan whose proximity to him has not gone down well with many party leaders. Paras said his group will continue to be part of the BJP-led NDA, and added that Paswan can remain in the organisation.

elements in the party, an apparent pointer to a close aide of

There has been no comment from Paswan on the development in his party. Soon after Paras spoke to reporters, Paswan drove to his uncle's residence in the national capital to meet him. Paswan's

cousin and MP Prince Raj also stays there. Paswan, who has not been keeping well for some time, waited for over 20 minutes in his car before he was let into the house and then left after spending more than an hour inside. He left without saying a word to waiting mediapersons.



[B] S/S: GETCO/ TR-II/ TL/ 220kV/ S&E/ 2519 (Short Notice Tender) Supply Erection, Testing & Commissioning of 220kV D/C Otha - GPPC Line No. 1 & 2 or D/C Tower with ACSR Zebra conductor with GI Earthwire - 7/3.15mm between location No. AP-14 to AP-30 (Restoration work due to Tauktae Cyclone) - 21.036 kM on turnkey basis

Above Tender are available on web-site www.gseb.com & www.getcogujarat.com (for view and download only) & https://getco.nprocure.com (For view, download and on line tender submission).

Note: Bidders are requested to be in touch with our website till opening of the Tender. "Energy Saved is Energy Generated" Addl. Chief Engineer (Procurement)

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF **ORACLE CREDIT LIMITED** Registered Office - P-7, Green Park Extn, New Delhi-110 016 Email- oracle_credit@yahoo.co.in; Website: www.oraclecredit.co.in Corporate Identification Number: L65910DL1991PLC043281

PUBLIC ANNOUNCEMENT UNDER REGULATION 18(11) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 ("REGULATIONS"), AND AS OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UPTO 14,43,000 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE INR 10.00 EACH ("EQUITY SHARES") REPRESENTING 26.00% OF THE TOTAL ISSUED, OUTSTANDING AND FULLY

PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL CARRYING VOTING RIGHTS OF ORACLE

CREDIT LIMITED, A COMPANY REGISTERED UNDER THE COMPANIES ACT

1956 AND HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT P-7,GREEN PARK EXTN

NEW DELHI-110016 ("TARGET COMPANY") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS (DEFINED BELOW) OF THE TARGET COMPANY BY MR. ADITYA VIKRAM KANORIA ("ACQUIRER 1") AND MR. MANDEEP SINGH ("ACQUIRER 2") (HEREINAFTER REFERRED TO AS "ACQUIRERS"), FOR CASH, (HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "OFFER" / "OPEN OFFER"). This Public Announcement ("PA" or "Public Announcement") is being issued by Fast Track Finsec Private Limited ("FTFPL"), ("Manager to the Offer") for and on behalf of Acquirers to the Public Shareholders of the Target Company pursuant to and in Compliance with, amongst others, Regulations 18(11) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto (("SEBI (SAST) Regulations, 2011"/"Regulations")) The Public Shareholder of Oracle Credit Limited (Target Company) are

request to make a note on the process relating to Open Offer: a) Tendering period will not open on June 15°, 2021 due to non-receive of


approval from Reserve Bank of India for Change of Management. b) Acquirers will pay off the Interest @10% per annum per Equity Share for delay in payment beyond the schedule payment date per fully paid up equity shares of the face value of INR 10/- (Rupees Ten Only) to all the shareholders of the Company who will tender the shares in the open offer from the date of Observation Letter.

Acquirers will intimate the shareholders of Target Company about the revised schedule of Tendering Period after receiving approval form Reserve Bank of India

Issued by Manager to the Offer Telephone: +91-11-43029809 Fastrack Finsec Email:vikasverma@ftfinsec.com **Investor Grievance** FAST TRACK FINSEC PRIVATE LIMITED CIN: U65191DL2010PTC200381 B-502, Statesman House, 148

Email: investor@ftfinsec.com Website: www.ftfinsec.com Contact Person: Mr. Vikas Kumar Verma Barakhamba Road, New Delhi - 110 001 | SEBI Reg. No: INM000012500 For & On behalf of the Acquirers


Aditya Vikram Kanoria Mandeep Singh STOP CORONA: WASH YOUR HAND, WEAR MASK &



MAINTAIN SOCIAL DISTANCE **DELHI JAL BOARD: DELHI SARKAR** OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER (T)

Place: New Delhi

Date: 14.06.2021



Applications are invited from the eligible officers for filling up the post of Member (Water Supply) and Member (Drainage) in Delhi Jal Board on nomination basis initially for a period of three years in Level-14 of Pay Matrix of Rs. 1,44,200- 2,18,200 under 7th Central Pay Commission within 45 days from the date of publication this advertisement to the Member (Administration), Delhi Jal Board.

Separate application for Member (WS) and Member (Dr.) should be filled up by the candidates. For further information, please visit our website www.delhijalboard.nic.in (VILAS RAMPAL) ISSUED BY P.R.O. (WATER)



ASSISTANT COMMISSIONER (T)

Notice - Cum - Addendum No. 18 of 2021 Addendum to the Statement of Additional Information (SAI), Scheme Information Document

(SID) and Key Information Memorandum (KIM) of the schemes of IDFC Mutual Fund Shifting of CAMS Office: Notice is hereby given that the following Investor Service Centre of Computer Age Management

Services Ltd. (CAMS), Registrar to IDFC Mutual Fund (the Fund), shall be shifted to the below mentioned new address: Location Old Address New Address Effective Date

Location	Olu Audi ess	Tien Address	Effective Date
Surendranagar	CAMS Service Centre, 2 M I Park, Near Commerce College, Wadhwan City, Surendranagar - 363 035. camssgnr@camsonline.com	CAMS Service Centre, Shop No. 12, M.D. Residency, Swastik Cross Road, Surendranagar - 363 001. Contact No. 02752-232599 camssgnr@camsonline.com	June 15, 2021

The above stated Investor Service Centre shall continue to be Official Point of Acceptance of Transaction ("OPAT") of all the schemes of the Fund and the Transaction / Investor Service Requests shall continue to be accepted at aforementioned location. All the other provisions of the SAI / SID / KIM of the schemes of the Fund except as specifically

modified herein above, read with the addenda issued from time to time, remain unchanged. This addendum forms an integral part of the SAI/SID/KIM of the schemes of the Fund, read with the addenda issued from time to time.

Date: June 14, 2021 MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME

Place: Mumbai

Advt. No. J.S.V. 109 (2021-22)

RELATED DOCUMENTS CAREFULLY. New Delhi

(पूर्व में स्मार्ट कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड विदित) पंजी. कार्यालयः 325, IIIरा तल, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 टेली: +91-11-45689444 | ईमेल आईडी: smartcap.delhi@gmail.com, वेबसाइटः www.smartcapitalservices.in | CIN: L74899DL1994PLC059877

पास्टल बलट सुचना कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागु होने वाले नियमों (इस समय के लागु किसी सांविधिक संशोधन अथवा उसके पुनरीक्षण सहित) तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के शीर्षक-IV तथा सूचीयन अनुबंध तथा लागू होने वाले अन्य कानूनों एवं विनियमनों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 तथा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने व्याख्यात्मक विवरण, पोस्टल बैलॅट प्रपत्र तथा स्व-पता लिखित पूर्व-प्रदत्त डाक शुल्क युक्त व्यावसायिक जवाबी लिफाफे के साथ पोस्टल बैलॅट सचना का प्रेषण 14 जून, 2021 को पूरा कर लिया है। यह सूचना ऐसे शेयरधारकों को भेजी गई है जिनके नाम 11 जून, 2021 (कट-ऑफ तिथि) को सदस्यों के रेजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों की सची/डिपॉजिटरीज के अभिलेखों मे

|ऐसे सदस्यों जिनके ईमेल पते उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस/कम्पनी के पास संबंधित तिथि को पंजीकृत हैं, को व्याख्यात्मक विवरण तथा पोस्टल बैलॅट प्रपत्र के साथ पोस्टल बैलॅट सचना इलेक्टॉनिक पद्धति से

व्यवसायों को पोस्टल बैलॅट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान (ई-वोटिंग) शामिल है, के द्वारा

स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलॅट / ई-वोटिंग प्रक्रिया का संचालन करने के लिये श्री आकाश गोयल, मै. जी आकाश एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कम्पनी सचिव के प्राप्सईटर को पर्यवेक्षक (''पर्यवेक्षक'') नियुक्त किया गया है। सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा भौतिक पोस्टल बैलॅट द्वारा अपना मतदान करने का विकल्प होगा।

सदस्यों को सचित किया जाता है कि क) पोस्टल बैलॅट सूचना में यथा निर्दिष्ट मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड से कम्पनी की इक्विटी शेयरों के स्वैच्छिक असचीकरण से संबंधित विशेष व्यवसायों को पोस्टल बैलॅट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान शामिल हैं, के द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

ख) ई-वोटिंग अवधि 15 जून, 2021 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरु होगी। ग) ई-वोटिंग अवधि 14 जुलाई, 2021 को 5.00 बजे सायं में बदं होगी।

घ) 14 जुलाई, 2021 को 5.00 बजे अप. के बाद प्राप्त की गई पोस्टल बैलॅट प्रपत्र को वैद्य नहीं माना जायेगा एवं इस तिथि के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।

📢 इ) जिन सदस्यों को पोस्टल बैलॅट प्रपत्र नहीं हो, वे कम्पनी को पंजीकृत कार्यालय में लिख सकते हैं अथवा smartcap.delhi@gmail.com पर ईमेल भेज कर उसका डुप्लिकेट प्राप्त कर सकते हैं। च) किसी भी प्रकार की समस्या/ पछताछ के लिये आप evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा सदस्यों के लिये ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा टोल फ्री नं.: 1800-222-990 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें अथवा सुश्री अमनदीप कौर, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी तथा ई-मेलः smartcap.delhi@gmail.com से सम्पर्क करें।

पोस्टल बैलॅट प्रपत्र के साथ पोस्टल बैलॅट सूचना कम्पनी की वेबसाईट https://smartcapitalservices.in तथा साथ ही नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. की पोस्टल बैलॅट परिणामों की धोषणा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय / कॉर्पोरेट कार्यालय में 15 जुलाई, 2021

को 5.00 बजे अप. या पूर्व में की जायेगी तथा उसे कम्पनी की वेबसाईट अर्थात www.smartcapitalservices.in तथा एनएसडीएल की वेबसाईट अर्थात् www.nsdl.com पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

निर्धारित समय के भीतर इन परिणामों की सूचना उन स्टॉक एक्सचैंजों को भी दी जायेगी जहां कम्पनी के शेयर्स सूचीबद्ध हैं। निदेशक मंडल के आदेश से

तिथिः 14.06.2021 स्थानः दिल्ली

स्काईबाक्स इंडस्टीज लिमिटेड के लिये अमनदीप कौर कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड सीआईएन: L34300DL1983PLC016136 पंजीकृत कार्यालय: 15वीं मंजिल, इरोस कॉरपोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस,

नई दिल्ली - 110019 फ़ोन: +91-11-66155129, +91-120-4588500 फैक्स नंबर: +91-120-4588513 -मेल: Investor@racigeartech.com वेबसाइट: www.raclgeartech.com

शेयर प्रमाणपत्रों के गुम होने की सुचना

विशिष्ट सं

एतदद्वारा सुचित किया जाता है की कम्पनी द्वारा जारी निम्न शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के कथित रूप से गुम/स्थानच्युत हो जाने की सुचना मिली है तथा उसके पंजीकृत धारक ने डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कम्पनी के पास आवेदन किया है

फोलियो	शरेधारक का नाम	शयर प्रमाणपत्र(त्रों) की सं.	ावाराष्ट्र स.		शेयरो
नं.			से	तक	की सं.
21561	पारसमल जैन	11069	3705098	3706007	100
16219	पारसमल जैन	1059	2704908	2705007	100
		1426	2741608	2741707	100
		1533	2752308	2752407	100
		1643	2763308	2763407	100
		2736	2872608	2872707	100
		3524	2951408	2951507	100
		5538	3152808	3152907	100
		7748-7750	3373808	3374107	300
		9920	3591008	3591107	100
		10289	3627908	3628007	100
		10902-10903	3689208	3689407	200
1		11436	3742608	3742707	100
		12300	3829008	3829107	100
		12433	3842308	3842407	100
		12435	3842508	3842607	100
		13203	3919308	3919407	100
		16178	4216808	4216907	100
		16246	4223608	4223707	100
		18988-18989	4497808	4498007	200
		21537	4752708	4752807	100
		21723	4771308	4771407	100
		22202	4819208	4819307	100
		01582	2757208	2757307	100
		11130-11131	3712008	3712207	200

एतेदद्वारा आम जनता को किसी भी रूप में उपरोक्त शेयर प्रमाणपत्रों की खरीद अथवा व्यवसाय के प्रति सतर्क किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का उक्त शेयर प्रमाणपत्रों के संबंध में कम्पनी के प्रति कोई दावा हो, वे इस सुचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर ऊपर दिए गए पते पर उसके पंजीकत कार्यालय में कम्पनी के पास ऐसे दावे दाखिल करें जिसके बाद किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जायेगा तथा कम्पनी इप्लीकेट शेयर

आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड के लिए गुरशरण सिंह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशेक

अचल

है के मामलें में

विथि: 14.06.2021



स्थान : नोएडा

दिनांक : 14 जून, 2021

परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा 8-बी , प्रथम तल, राजेंद्र पार्क, पुसा रोड, नई दिल्ली -110060

ई-मेल : delhiarm@ktkbank.com, मो.: 9319891680

सम्पत्ति की बिक्री सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन

अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 (1) के प्रावधान के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी एतदद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सुचित किया

जाता है कि प्रतिभृत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कर्णाटका बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 15.10.2020 को भौतिक कब्जा किया गया है की अधोलिखित 1) मै. राज कमल वायर इंडस्ट्रीज, प्रतिनिधित्व द्वारा उसके प्रॉप्राईटर श्री राजिन्दर शर्मा, 1/342 आईई गली नं. 1, फ्रैंड्स कॉलोनी, इंडस्ट्रियल एरिया, शाहदरा दिल्ली-110095 2) श्री राजिन्दर शर्मा, पुत्र श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, निवासीः बी-217, II रा तल, राम प्रस्थ, चन्दर नगर, गाजियाबाद, उ.प्र.–201011, 3) श्री रविन्दर शर्मा, पुत्र श्री कैलाश |चन्द शर्मा, निवासीः बी-255/5 एच, गली नं. 7, बी ब्लॉक, अशोक नगर, शाहदरा, दिल्ली-110095 जो ऋणधारक/ गारन्टर/ सह-देनदार हैं, से कर्णाटका बैंक लिमि., सविता विहार शाखा, प्लॉट नं. 13, साईं मंदिर के निकट, मैन रोड, गेट नं. 2, सविता विहार, दिल्ली-110092, प्रतिभूति क्रेडीटर के बकाये रु. 3,97,51,275.89/- (रु. तीन करोड़ सत्तानवे लाख इक्यावन हजार दो सौ पचहत्तर एवं पैसे नवासी मात्र), अर्थात क) 01.8.2018 से आगे के ब्याज के साथ पीआई ओवर ड्राफ्ट खाता नं. 54470007000051401 के अंतर्गत रु. 24009189.89, ख) 01.8.2018 से आगे के ब्याज के साथ एलसी/प्रॉटेस्टेड बिल नं. 5447003900000301 के अंतर्गत रु. 1,04,72,883,00 तथा ग) 01,08,2018 से आगे के ब्याज तथा लागतों के साथ एलसी/ प्रॉटेस्टेड बिल सं. 5447003900000401 के अंतर्गत रु. 52,69,203.00 की वसली के लिये 14.07.2021 को ''जैसा है जहां है'', तथा ''जो कुछ भी वहां है'' तथा ''जो भी जैसा है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

अचल सम्पत्ति/ मशीनरी का विवरण

श्री राजिन्दर शर्मा के स्वामित्व में ग्राम मंडोली. लाल डोरा. शाहदरा. दिल्ली-110093 में स्थित खसरा नं. 541 में प्लॉट नं. 541, माप 500 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 541 में निर्मित भवन के साथ औद्योगिक सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः मो. हाजी शोकत अली की सम्पत्ति. पश्चिमः वन्दना की सम्पत्ति. उत्तरः रोड. दक्षिण

आरक्षित मुल्य/ अपसेट मुल्य जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगीः रु

1,70,00,000.00 (रुपये एक करोड़ सत्तर लाख मात्र) जमा/ भुगतान की जाने वाली धरोहर राशिः रु. 17,00,000.00 (रुपये सत्तरह लाख मात्र)। (ऋणधारकों/ मार्टगैजरों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध

समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट

(इस सुचना को ऋणधारकों/ गारन्टरों के लिये प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली-2002 के नियम (9) के उप-नियम (1) के अंतर्गत) सूचना भी मानी जाये।)

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया कर्णाटका बैंक की वेबसाईट में दी गई लिंक अर्थात् www.karnatakbank.com पर शीर्ष ''बिक्री के लिये गिरवी परिसम्पत्तियां'

ई-नीलामी का संचालन 14.07.2021 **को** 11.00 **बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप.** तक 05 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टलः https://bankauctions.in पर किया जायेगा। इच्छुक बोलीदाता को https://bankauctions.in पर अपना नाम निःशुल्क पंजीकृत कराना होगा तथा **मै. 4 क्लोजर**, 605 ए, छठा तल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदराबाद-500038, सम्पर्क नं. 040-23736405, मोबाईल 8142000809, ईमेल: vikas@bankauctions.in तथा info@bankauctions.in से ई-नीलामी (अनुमानतः 13.07.2021 को) पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

स्थानः दिल्ली कर्णाटका बैंक लि. के लिये

सूचकांक और निफ्टी नए रेकॉर्ड स्तर पर

मुंबई, 14 जून (भाषा)।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में जबरदस्त लिवाली से सोमवार को



POSSESSION NOTICE of Property us 13(4) of SARFAESI Act 2002 (Borrower): Smt. Rita Chhabra W/o. Shri Yashpal Chhabra, 37,2nd Floor, Defence

Enclave, Vikas Marg, Preet Vihar, Delhi-110092 (Co-Borrower): Shri Lakshay Chhabra S/o. Shri Yashpal Chhabra, 37,2nd Floor,

Defence Enclave, Vikas Marg, Preet Vihar, Delhi-110092 Also at :- (1). M/s. Three Leaves Books international (Pvt.) Ltd. Pvt. Shop No.-02. Ground Floor, MGM Tower, MPL No.4634/1, Ward No.-1, Building No.-19, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002 (2). M/s. Three Leaves Books International (Pvt.) Ltd., E-1/16, Ground Floor, Ansar

Road, Darya Ganj, New Delhi-110002 (Surety): Shri Yashpal S/o. Late Shri Heera Nand Chhabra, 37,2nd Floor, Defence

Enclave, Vikas Marg, Preet Vihar, Delhi-110092 Whereas The undersigned being the Authorized Officer of the Keshav Sehkari Bank Limited (Name of the Institution) under The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with Rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 22.02.2021 calling upon the (Borrower) Smt. Rita Chhabra W/o. Shri Yashpal Chhabra. 37,2nd Floor, Defence Enclave, Vikas Marg, Preet Vihar, Delhi-110092 and (Co-Borrower) Shri Lakshay Chhabra S/o, Shri Yashpal Chhabra, 37,2nd Floor, Defence Enclave, Vikas Marg, Preet Vihar, Delhi-110092, Also at, M/s. Three Leaves Books international (P) Ltd., Pvt. Shop No.-02, Ground Floor, MGM Tower, MPL No.4634/1, Ward No.-1, Building No.-19, Ansari Road, Darya Ganj, Delhi-110092 and (Surety) Shri Yashpal Chhabra S/o. Late Shri Heera Nand Chhabra, 37, 2nd Floor, Defence Enclave, Vikas Marg, Preet Vihar, Delhi-110092 to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 20,31,044/- (Rupees Twenty Lakh Thirty One Thousand Forty Four Only), plus future interest and incidental expenses/cost thereon with effect from 22.02.2021 within 60 days from the date of receipt of the said notice. Whereas the Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers and Guarantors and the public in general that the undersigned has taken constructive as well as physical possession of the property described here in below in exercise of powers conferred on him/her under section 13 (4)

of the said Act read with Rule 8 & 9 of the said Rules on this 09th June 2021. The Borrowers in Particular and the public in general is here by cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of The Keshav Sehkari Bank Limited, Shakarpur Branch for and amount of Rs. 20.31,044/-(Rupees Twenty Lakh Thirty One Thousand Forty Four only) Plus future Interest & Cost/Incidental Charges thereon and other charges etc. w.e.f. 22.02.2021

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY :- Equitable Mortgaged of Freehold Land on Pvt. Shop No.-2, Ground Floor, without Roof Right, Area 250 Sft. App. Part of Property MPL No.4634/1, MGM Tower, Ward No.-1, Building No.-19, Ansar Road, Darya Ganj, New Delhi-110092, the Sale Deed/Title Deed in Fovour of Smt. Rita Chhabra W/o/ Shri Yashpal Chhabra and Shri Lakshay Chhabra S/o. Shri Yashpal Chhabra is duly registered in the office of Sub Registrar-III, New Delhi, vide Registration No.-5494 in Book No. 1, Vol. No. 17447 at Pages 124 to 137 on Dated 07.06.2018.

Sd/- Authorized Officer, Keshav Sehkari Bank Limite Dated: 09-06-2021 Place: Delhi

गोल्ड की निजी बिक्री के लिये सुचना

सभी संबंधितों की जानकारी के लिये एतदुद्वारा सचित किया जाता है कि बैंक की नीचे वर्णित शाखाओं में निम्न गोल्ड ऋण खाताओं

उत्तर प्रदेश-201301

एतदुद्वारा सचित किया जाता है कि मै. ईस्टर्न सर्जिकल कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 3791, नेताजी

सभाष मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002 में है, ने मै. ईस्टर्न सर्जिकल कम्पनी को बैंक ऑफ बडौदा द्वारा स्वीकत की जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता के लिए बैंक ऑफ बडौदा के साथ नीचे वर्णित

सम्पत्तियों (नीचे अनुसूची में वर्णित) को गिरवी रखने के लिए स्वीकृति दी है। उक्त सम्पत्ति या उसके किसी

भाग में बिक्री, उपहार, पट्टा, विरासत, विनिमय, गिरवी, प्रभार, लियेन, ट्रस्ट, कब्जा, ईजीमेन्ट, एटैचमेन्ट,

विवाचन. विवाद अथवा अन्य किसी रूप में यदि किसी व्यक्ति का हित का दावा हो. उन्हें इस तिथि से 30

दिनों के भीतर 1ला तल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में बैंक ऑफ

बड़ौदा, आईबीबी शाखा में उसके कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी को उसकी सूचना दें अन्यथा ऐसे दावे पर कोई

ध्यान दिये बिना उक्त गिरवी कारोबार को पूरा किया जाएगा तथा दावा, यदि कोई हो, उसे परित्यक्त माना

सम्पत्ति का विवरण

फंक्शनल इंडस्ट्रियल इस्टेट, पटपड़गंज, दिल्ली।

श्रीमती सविता आनंद, पत्नी श्री राकेश आनंद के स्वामित्व में सम्पत्ति सं. 355 (माप 450 वर्ग यार्डस)

श्रीमती सविता आनंद, पत्नी श्री राकेश आनंद तथा श्री राकेश आनंद, पुत्र स्व. श्री ओ.पी. आनंद के

स्वामित्व में भृतल + 1ला तल + 2रा तल + टैरेस तल, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, दिल्ली में शामिल

सम्पत्ति सं. 3791 के साथ पूर्वी दिशा की ओर निर्मित पोर्शन, सम्पत्ति सं. 3792 का भाग (माप लगभग

फॉर्म नं0. आईएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

केन्द्रीय सरकार के समझ, (क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के

नियम 30 के उप-नियम(5) के खंड(ए) के मामलें में

एको फलौदी सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U40300DL2018PTC335289) जिसका पंजीकृत

कार्यालय 104, 4637 / 20, मुनीश प्लाजा, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002, इंडिया में

एतदद्वारा सामान्य जनता को सुचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली

के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "हरियाणा राज्य" में स्थानान्तरित करने हेत् कंपनी अधिनियम, 2013

की घारा 13 के अन्तर्गत मंगलवार, 8 जून, 2021 को असाधारण सामान्य बैठक के माध्यम से पारित

विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली) के समक्ष

कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की

संभावना है तो वह निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)

में शिकायत दर्ज कर सकता है या शपथपत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का

आधार बताते हुए, इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (बोदह) दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक

के उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2 फ्लोर, पं. दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई

दिल्ली-110003 फोनः 011-24366038, फैक्सः 011-24366039 या ईगेल rd.north@mca.gov.in पर

पंजीकृत डाक द्वारा सुचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक / याचिकाकर्ता कंपनी के उल्लिखित

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF

ORACLE CREDIT LIMITED

Registered Office - P-7, Green Park Extn, New Delhi-110 016

Email- oracle_credit@yahoo.co.in; Website: www.oraclecredit.co.in Corporate Identification Number: L65910DL1991PLC043281

PUBLIC ANNOUNCEMENT UNDER REGULATION 18(11) OF THE SECURITIES

AND EXCHANGE BOARD OF INDIA SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF

SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 ("REGULATIONS"), AND AS

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UPTO 14,43,000 FULLY PAID-UP

EQUITY SHARES OF FACE VALUE INR 10.00 EACH ("EQUITY SHARES")

REPRESENTING 26.00% OF THE TOTAL ISSUED, OUTSTANDING AND FULLY

PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL CARRYING VOTING RIGHTS OF ORACLE

CREDIT LIMITED, A COMPANY REGISTERED UNDER THE COMPANIES ACT

1956 AND HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT P-7, GREEN PARK EXTN.

NEW DELHI-110016 ("TARGET COMPANY") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS (DEFINED BELOW) OF THE TARGET COMPANY BY MR.

ADITYA VIKRAM KANORIA ("ACQUIRER 1") AND MR. MANDEEP SINGH

("ACQUIRER 2") (HEREINAFTER REFERRED TO AS "ACQUIRERS"), FOR

This Public Announcement ("PA" or "Public Announcement") is being

issued by Fast Track Finsec Private Limited ("FTFPL"), ("Manager to the Offer") for and on behalf of Acquirers to the Public Shareholders of the

Target Company pursuant to and in Compliance with, amongst others,

Regulations 18(11) of Securities and Exchange Board of India (Substantial

Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent

The Public Shareholder of Oracle Credit Limited (Target Company) are

Tendering period will not open on June 15th, 2021 due to non-receive of

b) Acquirers will pay off the Interest @10% per annum per Equity Share for

delay in payment beyond the schedule payment date per fully paid up

equity shares of the face value of INR 10/- (Rupees Ten Only) to all the

shareholders of the Company who will tender the shares in the open

amendments thereto {("SEBI (SAST) Regulations, 2011"/"Regulations")}

approval from Reserve Bank of India for Change of Management.

CASH, (HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "OFFER" / "OPEN OFFER").

पंजीकृत कार्यालय के पते पर मेजी जानी चाहिए:

AMENDED FROM TIME TO TIME

वेंक ऑफ़ बड़ोदा

Bank of Baroda

बैंक ऑफ बडौदा. आईबीबी शाखा

आवेदक / वाचिकाकर्ता

कृते और आवेदक की ओर से

वंदना मधुसूदन

DIN: 05209009

एक्ने फलौदी सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

1ला तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन,

16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

नहीं किया गया है, को नीचे वर्णित रूप में 23.06.2021 को या उसके बाद शाखा में नीलामी के लिये रखी जायेगी:

निकट, नोएडा बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन, गौतम बुध

के अनुपालन में] केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष आपका सम्पूर्ण बैंकिंग पार्टनर कम्पनी अधिनियम. 2013 की धारा 13 की उप-पंजी. कार्यालयः अलवाये, केरल धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज

(ए) के मामले में में गिरवी रखी गई स्वर्ण आभुषणों जो विमोचन के लिये अधिशेष हैं तथा जिसे बार-बार सुचना देने के बावजूद अभी तक विनियमित पुष्प प्रोफाइल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले जिसका पंजीकृत कार्यालय है: 1797/13, 2रा तल,

भागिरथ पैलेस, दिल्ली-110006

रतदद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली["] से ''हरियाणा राज्य'' मे उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए शनिवार, 12 जून, 2021 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनो के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा

कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें। पुष्प प्रोफाइल्स प्राईवेट लिमिटेड U74899DL1995PTC069082 1797/13 2रा तल, भागिरथ पैलेस, दिल्ली-110006

ईमेल आईडी: agwire@hotmail.com आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से पष्प प्रोफाइल्स प्राईवेट लिमिटेड स्थानः नई दिल्ली निदेशक

तिथि- 14.06.2021 DIN: 00050206 मकान सं. ८६, आकाशनीम मार्ग, डीएलएफ फेज-II, चकरपुर, गुड़गांव,

सूचकांक और निफ्टी शुरुआती नुकसान से उबरकर अपने नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हए। कारोबारियों ने कहा कि वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख और कोविड-19 के नए मामलों में कमी से भी बाजार धारणा मजबूत हुई।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक 76.77 अंक या 0.15 फीसद के लाभ से 52,551.53 अंक पर बंद हुआ। यह इसका नया उच्च स्तर है। सुचकांक लगातार तीसरे दिन लाभ के साथ बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 12.50 अंक या 0.08 फीसद के लाभ से 15,811.85 अंक के अपने नए रेकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ।

सूचकांक की कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर सबसे अधिक 1.46 फीसद चढ गया। बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, इन्फोसिस, पावरग्रिड, एलएंडटी और इंडसइंड बैंक के शेयर भी लाभ में रहे। दुसरी ओर कोटक बैंक, एचडीएफसी, सन फार्मा, बजाज ऑटो, एनटीपीसी, मारुति और एचडीएफसी बैंक के शेयर 1.51 फीसद तक टुट गए।

इस बीच, अडाणी समृह की कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट आई। इसकी वजह इस तरह की खबरें हैं कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) ने तीन विदेशी कोषों के खातों को फ्रीज कर दिया है। ये विदेशी कोष समह की कंपनियों में सबसे बडे शेयरधारक हैं। हालांकि, अडाणी समृह ने कहा है कि इन तीन विदेशी कोषों के खातों को फ्रीज नहीं किया गया है। इस बारे में खबरें भ्रामक हैं।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि घरेलु बाजार नकारात्मक रुख के साथ खुले, लेकिन बड़ी कंपनियों की अगआई में दोपहर के कारोबार में ये उबर गए। मई की थोक मल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 12.94 फीसद पर पहुंच गई है, जिससे पता चलता है कि ईंधन और विनिर्मित उत्पादों के दाम ऊंचे स्तर पर हैं। नायर ने कहा कि फेडरल रिजर्व की बैठक 15-16 जून को होगी। इससे आगामी दिनों में निवेशकों का रुख तय होगा। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप में 0.68 फीसद की गिरावट आई।

इस बीच, अंतराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल 0.94 फीसद की बढ़त के साथ 73.37 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 22 पैसे टूटकर 73.29 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 िकंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 [कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

> 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में वायर्स स्पेशियलिस्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले जिसका पंजीकृत कार्यालय है: 1797/13, 2रा तल, भागिरथ पैलेस, दिल्ली-110006

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-

धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली,

एतदुद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से ''हरियाणा राज्य'' उसके पंजीकत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए शनिवार, 12 जून, 2021 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनो के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों क

उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी

आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ

कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जम कराएं या पंजीकत डाक से भेजें। वायर्स स्पेशियलिस्टस प्राईवेट लिमिटेड U27106DL1996PTC076765 1797/13 2रा तल, भागिरथ पैलेस, दिल्ली-110006

ईमेल आईडी: agwire@hotmail.com आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से वायर्स स्पेशियलिस्ट्स प्राईवेट लिमिटेड जीतेन्दर अगरवार

DIN: 00050206 मकान सं. 86, आकाशनीम मार्ग, डीएलएफ फेज-II, चकरपुर, गुड़गांव, हरियाणा-12200

नई दिल्ली, 14 जून (भाषा)।

मुंबई के बाद हैदराबाद दूसरा महानगर हो गया है, जहां पेट्रोल के दाम सौ रुपए लीटर के पार निकल गए हैं। वाहन ईंधन की कीमतों में सोमवार को फिर बढोतरी हुई।

सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के दाम 29 पैसे और डीजल के 30 पैसे लीटर बढ़ाए गए हैं। पिछले छह हफ्तों में वाहन ईंधन कीमतों में यह 24वीं बढोतरी है। इससे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं।

राजधानी दिल्ली में पेट्रोल अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 96.41 रुपए लीटर पर पहुंच गया है। वहीं डीजल 87.28 रुपए लीटर पर है। मुल्यवर्धित कर (वैट) और ढुलाई भाडे की वजह से विभिन्न राज्यों में ईंधन के दाम भिन्न-भिन्न होते हैं। इसी वजह से अब सात राज्यों और संघ शासित प्रदेशों- राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और लद्दाख में पेट्रोल का खुदरा दाम सौ रुपए

लीटर पार हो गया है।

फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

तेलंगाना के कई राज्यों में पेट्रोल इसी महीने पहले ही सौ रुपए लीटर को छू गया था। राज्य की राजधानी हैदराबाद में पेट्रोल सोमवार को सौ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। हैदराबाद में अब पेट्रोल 100.20 रुपए और डीजल 95.14 रुपए लीटर है। हैदराबाद दुसरा महानगर है जहां पेट्रोल सौ रुपए लीटर के पार निकला है। मुंबई में 29 मई को पेट्रोल सौ रुपए लीटर के पार हुआ था। इस समय मुंबई में पेट्रोल 102.58 रुपए और डीजल 94.70 रुपए लीटर बिक रहा है। राजस्थान का श्रीगंगानगर देश

का पहला जिला था जहां पेटोल सबसे पहले सौ रुपए लीटर के पार हुआ था। फरवरी के मध्य में वहां पेट्रोल सौ रुपए लीटर हो गया था। शनिवार को श्रीगंगानगर में डीजल भी सौ रुपए लीटर के पार निकल गया। अब शहर में पेट्रोल 107.53 रुपए और डीजल 100.37 रुपए लीटर बिक रहा है। वहां प्रीमियम पेट्रोल 110.81 रुपए और डीजल 104.03 रुपए लीटर बिक रहा है।

आइडीएफसी फर्स्ट बैंक ने शुरू किया 'घर-घर राशन' कार्यक्रम

नई दिल्ली, 14 जून (जनसत्ता)।

आइडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने कम आय वाले ग्राहकों, जिनकी आजीविका कोरोना से प्रभावित हुई है, उनके लिए कर्मचारी वित्त पोषित कार्यक्रम 'घर–घर राशन' कार्यक्रम शुरू करने का एलान किया है। बैंक ने उन कर्मचारियों के परिवारों के लिए भी एक व्यापक कार्यक्रम की घोषणा की जिन्होंने कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा दी है।

आइडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी व सीईओ वी वैद्यनाथन ने कहा कि इस महामारी की भयावहता को देखते हुए हम ग्राहकों की सभी समस्याओं का

समाधान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने ग्राहकों का यथासंभव सहयोग करना चाहते हैं। इसलिए हमने 'घर-घर राशन' कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हमारे कर्मचारियों ने कोरोना ग्राहक देखभाल कोष (कोविड कस्टमर केयर फंड) बनाने के लिए एक दिन के वेतन से लेकर एक महीने के वेतन तक का योगदान दिया है। हमने तब इस कोष का उपयोग सीधे अपने उन ग्राहकों की सहायता के लिए करने का फैसला किया, जिनकी आजीविका कोरोना के कारण प्रभावित हुई है। हमारे कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से हमारे प्रभावित ग्राहकों को जरूरी राशन की आपुर्ति करेंगे।

सोने में 464 रुपए की गिरावट

नई दिल्ली, 14 जून (भाषा)।

बहुमूल्य धातुओं की वैश्विक कीमतों में गिरावट के अनुरूप दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 464 रुपए की हानि के साथ 47,705 रुपए प्रति दस ग्राम रह गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 48,169 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 723 रुपए की हानि के साथ 70,420 रुपए किलो रह गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी का बंद भाव 71,143 रुपए किलो था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव मामूली गिरावट के साथ 1,858 डॉलर प्रति औंस था जबकि चांदी का भाव 27.70 डॉलर प्रति औंस पर लगभग स्थिर बना रहा।

Date: 14.06.2021

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

The consulting services ("services") include, but not restricted to-

- 1. Finalisation of alignment of Northern Ring Road based on the alignment proposed by NHAI for-

 - (ii) C-Zone byepass to Ajmer road.
- 2. Survey of 360 meter wide development corridor using latest technology such as DGPS & high resolution drone survey.
- 3. Data collection for 360 meter wide development corridor from various departments.
- Collection & Digitalization of Revenue maps;
- (ii) Geo-referencing of revenue maps;
- (iii) Superimposition of revenue maps;
- meter width or in extra width as per the site conditions.
- 6. Planning/Re-planning of the proposed corridor including preparation of detailed
- / land pooling model. 8. Preparation of Detailed Project Report (DPR) including Revenue, Town planning
- and Engineering components and amendments thereof, if any. till its approval by competent authority.
- etc. up to successful award of work. Handholding support during implementation of the projects, preparation of draft
- 11. Obtaining statutory clearances from various government organizations for implementation of project.

Authority has successfully planned and implemented the southern part (Ajmer Road to Agra Road) of Jaipur Ring Road and its development corridor as per Jaipur MDP-2025. JDA plans to implement northern part of Ring Road. Interested national consulting firm(s) willing to provide comprehensive services for planning and implementation, or part of it, are invited to present themselves through power point presentation demonstrating their qualification, experience and ability to perform the services. A Consultation cum Orientation Meet is proposed on 30 June, 2021 at 12:00 PM in Manthan Hall, Jaipur Development Authority, Jaipur with interested Consulting firm(s). Detailed request for proposal shall be finalised after due consultation with participants. The Authority reserves the right to shortlist or not to shortlist any or all of the firms without assigning any reason whatsoever. Further information or clarification on the EOI can be obtained from Mr. R. K. Vijayvargia, Director (Town Planning), JDA (Mobile No. - 91-9828109493) during office hours.

SECRETARY

प्ररूप संख्या यूआरसी-2 अधिनियम के अध्याय XXI के भाग 1 के तहत पंजीकरण के संबंध में सूचना का विज्ञापन {कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और

कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राविकृत) नियम, 2014

के नियम 4 (1) के अनुसरण में} सचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप धारा (2) के अनुसरण में रिजस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (IICA), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड-122050 को एक आवेदन पंत्रह दिनों के बाद, लेकिन तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पहले प्रस्तावित है, की "**कुआलफोन एडवांस्ड** टेक्नोलॉजी सैंटर एलएलपी (एलएलपीआईएन-एएजी-0678)" एक एलएलपी को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग 1 के अधीन शेयरों द्वारा

सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाए। कंपनी के मूल उद्देशय इस प्रकार हैं: वैश्विक तकनीकी सहायता और संपर्क केंद्र, कॉल सेंटर, बैक ऑफिस और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) के व्यवसाय को जारी रखने के लिए

. प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुच्छेद ज्ञापन की प्रतिलिपि का निरीक्षण विंग-ए, पहली मंजिल, 418 और 419 फेस-IV, उद्योग विहार गृहगांव -122015 (हरियाणा) स्थित कार्यालय में किया जा सकता है। . सुचना दी जाती है की यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन

पर आपत्ति है तो वह लिखित में अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर रिजस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (IICA), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड-122050, पर भेज दें तथा इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भी

विश्वनाथ सीताराम - नामित साथी दिनांक : 15 जून 2021 | स्थान : गुडगांव ''प्रपत्र सं. यूआरसी-2''

अधिनियम के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकरण के विषय में सचना देने के [कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) तथा कम्पनीज (पंजीकरण के लिए प्राधिकृत) नियमावली. 2014 के नियम 4(1) के अनुपालन

. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुपालन में दिल्ली में रजिस्ट्रार के पास यहां के पन्द्रह दिनों के बाद किन्त तीस दिनों की समाप्ति से पूर्व इस आशय का एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है कि हेरिगो ईजी वर्क एलएलपी एक एलएलपी को शेयर्स द्वारा एक कम्पनी लिमिटेड के रूप में कम्पनी अधिनियम, 2013 के शीर्षक XXI के भाग 1 के

. कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: अभियांत्रिकी . प्रस्तावित कम्पनी के ड्राफ्ट मेमोरैण्डम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति 71 ई, पॉकेट-ई. मयर विहार, फेज-2, दिल्ली-110091, भारत में कार्यालय में देखी जा सकती है।

।. एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो, वे उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर लिखित में अपनी आपत्ति सेन्ट्रल रजिस्ट्रेशन सेन्टर (सीआरसी), भारतीय कॉर्पीरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर जिला गुड़गाँव, (हरियाणा), पिन कोड-122050 में रजिस्ट्रार के पास जमा करें। आज, दिनांक 15 जून, 2021 को

> आवेदक का नाम हेरिगो इंजीवर्क एलएलपी के लिए करण पाल सिंह पदनामित पार्टनर DPIN-02197832

offer from the date of Observation Letter. Acquirers will intimate the shareholders of Target Company about the revised schedule of Tendering Period after receiving approval form Reserve Bank of India. Issued by Manager to the Offer Telephone: +91-11-43029809

request to make a note on the process relating to Open Offer:

Email: investor@ftfinsec.com **FAST TRACK FINSEC PRIVATE LIMITED** Website: www.ftfinsec.com CIN: U65191DL2010PTC200381 Contact Person: Mr. Vikas Kumar Verma B-502, Statesman House, 148, Barakhamba Road, New Delhi -SEBI Reg. No: INM000012500

For & On behalf of the Acquirers Sd/-

Email:vikasverma@ftfinsec.com

Investor Grievance

Aditya Vikram Kanoria Mandeep Singh

Indira Circle, Jawaharlal Nehru Marg, Jaipur-302004

Jaipur Development Authority, Jaipur ("Authority") invites Expression of Interest (EOI) for consultation with qualified, eligible and experienced National Consulting firm(s) for inviting suggestions to shortlist / identify Consultant(s) for "SURVEY, PLANNING AND IMPLEMENTATION OF NORTHERN PART OF JAIPUR RING ROAD"

- - Agra road to C-Zone byepass.
- Collection of revenue records-

 - (iv) Collection of land ownership data for the corridor.
- Preparation of proposal of land acquisition of the development corridor in 360
- 7. Identification of plots for compensation to land owners using developed land model
- 9. Preparation of various tender documents their evaluation, finalization of tender
- allotment letters and site plans for the entire corridor.

Raj. Samwad/C/2216/2021-22

www.readwhere.com

तिथि: 15.06.2021

मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

Date: 14.06.2021

Place: New Delhi

Fastrack Finsec